

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनायें

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. 15070-TDS-04-UJN-2022-5329.

उज्जैन, दिनांक 5 सितम्बर 2023

"प्ररूप-उन्नीस"

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-04/2022 अर्थात् ग्राम निमनवासा एवं कोठी महल को संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उज्जैन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिविन्यास मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्ररूप-उन्नीस (क) प्ररूप-उन्नीस (ख) तथा प्ररूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं :-

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन
3. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला कार्यालय उज्जैन
4. कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
5. प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् www.udaujain.org
उपरोक्त स्कीम दिनांक 05-09-2023 से प्रभावशील होगी.

(G-1921)

1325

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that, our correct name is Keshav Bhardwaj S/o Sanjay Bhardwaj and Deepali Bhardwaj, But in my son Keshav Bhardwaj's schools documents our name is written Keshav Bharadwaj S/o Sanjay Bharadwaj and Deepali Bharadwaj in which our surname's spelling is wrong. Henceforth in all of my son's documents our correct name will be written Keshav Bhardwaj S/o Sanjay Bhardwaj and Deepali Bhardwaj for all purposes.

Applicant

Deepali Bhardwaj (Mother),
Add.-12, Brij Vihar Colony,
Annapurna Road, Indore (M.P.).

(G-1922)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारा सही नाम ख्याति धारीवाल पुत्री मनीष धारीवाल एवं श्रुति धारीवाल है, किन्तु हमारी पुत्री ख्याति धारीवाल के जन्म प्रमाण-पत्र में हमारा नाम ख्याति पुत्री मनीष धारीवाल एवं श्रुति मनीष धारीवाल लिखा हुआ है, अतः हमारी पुत्री ख्याति धारीवाल के स्कूल सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा सही नाम ख्याति धारीवाल पुत्री मनीष धारीवाल एवं श्रुति धारीवाल ही लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

श्रुति धारीवाल—माताजी
पता—26, बीमा नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(G-1923)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अव्यस्क पुत्र सौम्य भूरानी (SOUMYA BHURANI) का नाम बदलकर राघव भूरानी (RAGHAV BHURANI) रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को राघव भूरानी (RAGHAV BHURANI) के नाम से जाना-पहचाना जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम

(सौम्य भूरानी)

नया नाम

(राघव भूरानी)

श्याम भूरानी

10-ए, पैलेस कॉलोनी,

पता—साहू आटा चक्की के पास, इन्दौर (म. प्र.)

(G-1924)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अव्यस्क पुत्र रुद्र के शैक्षणिक अभिलेख में त्रुटिवश मेरा व मेरे पुत्र रुद्र का सरनेम शर्मा (Sharma) लिखा गया है जिसे बदलकर मैथिल (MAITHIL) कर लिया है. अतः मेरे पुत्र का नाम रुद्र मैथिल और मेरा नाम खुशबु मैथिल पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना उपनाम

(शर्मा)

नया उपनाम

(मैथिल)

खुशबू शर्मा

पता—31, माणिकबाग लाईन,

दिंगबर स्कूल के पास, इन्दौर (म. प्र.).

(G-1925)

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that, my correct name is Ranjan Kumar Shukla, But in my Son Abhay Shukla's some of documents my name is written Ranjan Shukla in which my middle name is missing. Henceforth in all of my Son's documents my name will be written Ranjan Kumar Shukla for all purposes.

OLD NAME
Ranjan Shukla

NEW NAME
Ranjan Kumar Shukla
11, Lalaram Nagar,
Indore (M.P.).

(G-1926)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, अभी तक मेरे पुत्र का नाम तिजिल माहेश्वरी पुत्र मयंक माहेश्वरी था जिसे जब बदलकर रघुवर माहेश्वरी पुत्र मयंक कुमार माहेश्वरी कर लिया है. अतः मेरे पुत्र के जिस भी दस्तावेज में उसका नाम तिजिल माहेश्वरी पुत्र मयंक माहेश्वरी लिखा हुआ है, उन सभी दस्तावेजों में मेरे पुत्र को परिवर्तित नये नाम रघुवर माहेश्वरी पुत्र मयंक कुमार माहेश्वरी के नाम से ही लिखा-पढ़ा एवं जाना-पहचाना जावे.

प्रार्थी

मयंक कुमार माहेश्वरी-पिताजी,
279, एम. जी. रोड,
अलीराजपुर (म. प्र.).

(G-1927)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में पूर्व नाम राधारमण पटेल (Radharaman Patel) भूल व त्रुटिवश लिखा गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम ऋषभ यादव (Rishabh Yadav) है. अतः उपरोक्त पालिसी में मेरा नाम ऋषभ यादव (Rishabh Yadav) पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राधारमण पटेल)

नया नाम

(ऋषभ यादव)

ग्राम चोली, तहसील महेश्वर,
जिला खरगोन (म. प्र.).

(G-1928)

CHANGE OF NAME

It is informed to the General Public that previously my Name was DURGA VARFA. Now I have changed my name as DRISHTI VARFAD/o GENDALAL VARFA. Now in future I will be known as DRISHTI VARFA.

OLD NAME
(DURGA VARFA)

NEW NAME
(DRISHTI VARFA)

(G-1929)

178, Shikshak Colony,
Barnagar, Dist. Ujjain (M.P.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश कुमार काशिव पिता स्व. श्री रेवाशंकर काशिव म. न. 88 अमृत एन्वलेव, अयोध्या नगर, भोपाल. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मेरे पिता के साथ जोड़कर मुकेश कुमार रेवाशंकर अंकित किया गया है। जबकि मेरा पूरा नाम मुकेश कुमार काशिव एवं पिता का नाम श्री रेवाशंकर काशिव है जो कि मेरे आधार कार्ड में भी दर्ज है. अतः मुकेश कुमार काशिव पिता स्व. श्री रेवाशंकर काशिव एवं मुकेश कुमार रेवाशंकर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अर्थात् दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः मुझे मेरे सही नाम मुकेश कुमार काशिव पिता स्व. श्री रेवाशंकर काशिव के नाम से ही जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मुकेश कुमार रेवाशंकर)
पिता स्व. श्री रेवाशंकर काशिव

नया नाम

(मुकेश कुमार काशिव)
पिता स्व. श्री रेवाशंकर काशिव.

(G-1930)

आम सूचना

भारतीय साझेदारी विधान 1932 की धारा 72 के अन्तर्गत सूचना

सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सेंट्रल स्टोरेज एजेंसी, इन्दौर (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक नम्बर 81 दिनांक 12-04-1978 भागीदारी फर्म पैके एक भागीदार श्रीमती गायत्री देवी माहेश्वरी पति श्री बनवारीलाल माहेश्वरी, निवासी-19/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म. प्र.) का दिनांक 15-01-2023 को स्वर्गवास हो जाने से उनकी भागीदारी समाप्त हो गई है. तत्पश्चात् शेष रहे भागीदारों ने उक्त भागीदारी व्यवसाय को पूर्ववत जारी रखते हुए दिनांक 15-01-2023 को भागीदारी परिवर्तन की शर्तों की आपसी लिखा-पढ़ी लेखबद्ध कर ली है, जो हम सभी भागीदारों पर दिनांक 15-01-2023 से बंधनकारी होगी.

भवदीय

For Central Storage Agencies,

(हरिश माहेश्वरी)

पार्टनर.

(G-1931)

आम सूचना

भारतीय साझेदारी विधान 1932 की धारा 72 के अन्तर्गत सूचना

सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एम. पी. केमिकल्स एण्ड वाटर प्रूफिंग इण्डस्ट्रीज, इन्दौर (म. प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 41 सन् 1965 दिनांक 06-04-1965 भागीदारी फर्म पैके एक भागीदार श्रीमती गायत्री देवी माहेश्वरी पति श्री बनवारीलाल माहेश्वरी, निवासी-19/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म.प्र.) का दिनांक 15-01-2023 को स्वर्गवास हो जाने से उनकी भागीदारी समाप्त हो गई है. तत्पश्चात् शेष रहे भागीदारों ने उक्त भागीदारी व्यवसाय को पूर्ववत जारी रखते हुए दिनांक 15-01-2023 को भागीदारी परिवर्तन की शर्तों की आपसी लिखा-पढ़ी लेखबद्ध कर ली है, जो हम सभी भागीदारों पर दिनांक 15-01-2023 से बंधनकारी होगी.

भवदीय

For M. P. Chemicals & Waterproofing Industries,

(विशाल माहेश्वरी)

पार्टनर.

(G-1932)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम यज्ञनिधि त्रीपाठी (Yagyanidhi Tripathi) पुत्री श्री अशोक त्रीपाठी (Ashok Tripathi) था तथा शादी के उपरांत यज्ञनिधि गौतम (Yagyanidhi Gautam) पत्नी श्री अभिषेक गौतम (Abhishek Gautam) आत्मज श्री जितेन्द्र कुमार गौतम (Jitendra Kumar Gautam) हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम यज्ञनिधि गौतम (Yagyanidhi Gautam) पत्नी श्री अभिषेक गौतम (Abhishek Gautam) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(यज्ञनिधि त्रीपाठी)
(Yagyanidhi Tripathi)
पुत्री-श्री अशोक त्रीपाठी
(Ashok Tripathi)

नया नाम

(यज्ञनिधि गौतम)
(Yagyanidhi Gautam)
पत्नी-श्री अभिषेक गौतम
(Abhishek Gautam)
पता-ई-8/27, शाहपुरा रोड, त्रिलंगा,
भोपाल (म.प्र.).

(G-1933)

NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT. 1932**

Notice is hereby given that the firms "SHREE VASUDEV DOOR" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/0298/20 year 2020-2021 date of registration 01-12-2020 undergone the following changes:-

1. That Shri Dev Tulsidas Rajani S/o Shri Tulsidas Rajani And Shri Narendra Patel S/o Shri Popatlal Patel have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and further Shri Bhavani Hareesh Arvind Bhai S/o Shri Arvind Bhai And Shri Yash Patel S/o Shri Girish Patel in pursuance to his desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01-04-2023.

SHREE VASUDEV DOOR,

(GIRISH PATEL)

(Partner).

Add:-Shad No. 2, Plot No. 18-B, Sector-H,
Govindpura Industrial Area, Bhopal (M.P.).

(G-1934)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजा सिंह दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में मेरा नाम हरनाम सिंह उर्फ राजा सिंह दर्ज है. दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. सूचना प्रकाशन के उपरांत मेरा नाम राजा सिंह के स्थान पर हरनाम सिंह के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा लिखा व समझा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हरनाम सिंह उर्फ राजा सिंह)

नया नाम

(हरनाम सिंह)

पिता-श्री रूप सिंह

पता-केयर आफ दारा सिंह सेंगर

2/155, न्यू कॉलोनी, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1935)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पप्पू सिंह राजपूत, निवासी म. नं. 30, मीरा मंदिर, ईश्वर नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश. मेरे पुत्र का नाम पृथ्वी सिंह राजपूत आत्मज पप्पू सिंह राजपूत है. किन्तु भूलवश स्कूल रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम पृथ्वी पिता का नाम पप्पू एवं माता का नाम मोहिनी लिखा गया है. अर्थात् किसी के नाम में सरनेम नहीं लिखा है. अतः मेरे पुत्र का सही व पूरा नाम पृथ्वी सिंह राजपूत पिता का नाम पप्पू सिंह राजपूत एवं माता का नाम मोहिनी सिंह राजपूत लिखा व पढ़ा व जाना-पहचाना जाए.

भवदीय

(पप्पू सिंह राजपूत)

(G-1936)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मतीन हुसेन शेख पिता मोहम्मद हुसेन, निवासी 10/1, अशोक नगर, ग्रीन सिटी, रतलाम. मेरे हाई स्कूल की अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन, सही नाम मतीन हुसेन शेख अंकित है. लेकिन मेरे कुछ कागजात पेनकार्ड अन्य में मतीन हुसेन गलती से अंकित हो गया है. मेरा नाम मतीन हुसेन शेख है. सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय रिकार्ड में पेनकार्ड आदि जहां कहीं भी मतीन हुसेन शेख ही जाना-पहचाना व माना जावे. मतीन हुसेन व मतीन हुसेन शेख दोनों मेरे ही नाम हैं.

पुराना नाम

(मतीन हुसेन)

नया नाम

(मतीन हुसेन शेख)

पिता-मोहम्मद हुसेन.

(G-1937)

CHANGE OF NAME

I, Anvari, w/o Iqwal Khan, resident of Rathore Mohalla, Chhawani, Shivpuri, have changed my name from ANNO alias ANNO BANO alias ANWARI BANO alias ANVARI BEGAM to ANVARI. Henceforth, I shall be known as ANVARI for all purposes.

OLD NAME

(ANNO alias ANNO BANO
alias ANWARI BANO alias
ANVARI BEGAM)

NEW NAME

(ANVARI)
W/o Iqwal Khan

(G-1938)

नाम परिवर्तन

मैं कृष्ण कुमार द्विवेदी आत्मज श्री धीरज प्रसाद द्विवेदी, निवासी रूम नंबर 5, रेवा बिल्डिंग, एस.ए.एफ. 6वीं बटालियन रांझी, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर का निवासी हूँ. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्ण कुमार पिता श्री धीरज प्रसाद दर्ज है जबकि मेरा पूरा नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी पिता श्री धीरज प्रसाद द्विवेदी है. मेरे समस्त दस्तावेजों में एवं सर्विस रिकार्डों में मेरा सही नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी पिता श्री धीरज प्रसाद द्विवेदी लिखा जाये.

पुराना नाम

(कृष्ण कुमार)

पिता-धीरज प्रसाद.

नया नाम

(कृष्ण कुमार द्विवेदी)

पिता-श्री धीरज प्रसाद द्विवेदी.

(G-1939)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह के पूर्व में मेरा नाम भावना गुप्ता (Bhavana Gupta), पिता नरेन्द्र गुप्ता (Narendra Gupta) था तथा मेरा यही नाम पूर्व के समस्त दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. वर्तमान में विवाह के बाद मेरा नाम भावना सोनी (Bhavana Soni), पति हरीश सोनी (Harish Soni) हो गया है. अब मैं अपने इसी नाम से संबोधित व पहचानी जाती हूँ व भविष्य में भी अपने इसी नाम से जानी जाऊंगी. उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम है.

पुराना नाम
(भावना गुप्ता)
(G-1940)

नया नाम
(भावना सोनी)
पति-हरीश सोनी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संदीप कुमार जैन पुत्र श्री नरेश चंद जैन, 54, द्वारकापुरी कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.) मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम संदीप कुमार जैन पुत्र श्री नरेश चंद जैन है. मेरी पुत्री कु. अबनी जैन के विद्यालय प्रवेश के समय स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम संदीप जैन लिखा हुआ है. परन्तु मेरा पूरा नाम संदीप कुमार जैन है. अतः सर्व को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम संदीप कुमार जैन पुत्र श्री नरेश चन्द जैन पढ़ा एवं लिखा जाये.

पुराना नाम
(संदीप जैन)
(G-1941)

नया नाम
(संदीप कुमार जैन)
पुत्र-श्री नरेश चंद जैन.

NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/S BHUMI DOOR" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/0399/18 year 2017-2018 date of Registration 20/01/2018 undergone the following changes:-

1. That Mr. Shankarlal Chhaganlal Patel S/o, Shri Chhaganlal Patel have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and further Mr. Umesh Bhavani S/o Shri Arvind Bhavani in pursuance to his desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01-04-2023.

"M/S BHUMI DOOR",

(GIRISH PATEL)

(Partner)

Plot No.-B-28, Industrial Area,
Bagroda, Bhopal.

(G-1942)

NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT, 1932**

Notice is hereby given that the firms "M/s. PATIDAR PLY HOUSE" of Bhopal vide Reg. No. 01/03/01/0071/19 year 2019-2020 date of Registration 16/05/2019 undergone the following changes:-

1. That Shri Nakrani Himanshu Mohanlal S/o, Shri Nakrani Mohanlal have expressed his desire to

join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and further Shri Narendra Patel S/o, Shri Papatlal Patel, Shri Papatlal Patel S/o, Shri Dhanji Bhai Patel and Smt. Prabha Ben Patel W/o, Shri Girish Patel in pursuance to his desire to retire from the partnership firm and Registered Office is shifted at Plot No.-201, Opp. Railway Track, M.P. Nagar, Zone-2, Bhopal, w.e.f. 01-04-2023.

"M/s. PATIDAR PLY HOUSE",
(DIPESH ARVIND BHAI BHAVANI)
(Partner)
Plot No.-201, Opp. Railway Track,
M.P. Nagar, Zone-2, Bhopal.

(G-1943)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में शत्रुघन सिंह त्रुटिवश दर्ज हो गया है जो कि गलत है. अतः मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित गुर्जर दर्ज है जो कि सही नाम है. अतः अब मुझे अंकित गुर्जर के नाम जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(शत्रुघन सिंह)
आत्मज-श्री कैलाश गुर्जर.

नया नाम
(अंकित गुर्जर)
आत्मज-श्री कैलाश गुर्जर,
पता-भारत पुरा, मुंगावली, पोस्ट
तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.).

(G-1944)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन सिंह लोधी पुत्र श्री नारायण सिंह लोधी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी शैक्षणिक में मेरा नाम टिल्लू सिंह लोधी अंकित है एवं अन्य समस्त दस्तावेजों आदि में मोहन सिंह लोधी दर्ज है. जो कि सही व वास्तविक नाम है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही है. वर्तमान में मैं, मोहन सिंह लोधी के नाम से ही जाना व पहचाना जाता हूँ एवं भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा. पूर्व में जारी शैक्षणिक दस्तावेजों एवं भविष्य में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यों तथा दस्तावेजों में मेरा नाम मोहन सिंह लोधी लिखा, पढ़ा व उपयोग किया जावे.

पुराना नाम
(टिल्लू सिंह लोधी)
(TILLU SINGH LODHI)

नया नाम
(मोहन सिंह लोधी)
(MOHAN SINGH LODHI)

(G-1945)

नाम परिवर्तन

मैं, रज्जन प्रसाद कुशवाहा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (सैट) जबलपुर में वाहन चालक के पद पर कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम रज्जन काष्ठी दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रज्जन प्रसाद कुशवाहा दर्ज है. मेरा सही नाम रज्जन प्रसाद कुशवाहा मेरे सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे एवं मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना व लिखा पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(रज्जन काष्ठी)

नया नाम
(रज्जन प्रसाद कुशवाहा)

(G-1946)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम अशी गुप्ता के नाम से पुकारते थे, परंतु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम निष्ठा गुप्ता (NISHTHA GUPTA) पुत्री श्री प्रदीप गुप्ता (PRADEEP GUPTA) लिखा हुआ है, मैं इसी नाम से जानी- पहचानी व पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं, निष्ठा गुप्ता (NISHTHA GUPTA) पुत्री श्री प्रदीप गुप्ता (PRADEEP GUPTA) के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी.

प्रार्थी

निष्ठा गुप्ता

(NISHTHA GUPTA)

पुत्री-श्री प्रदीप गुप्ता (PRADEEP GUPTA)

निवासी-डी-3, जगमाया कॉम्प्लेक्स, रवि नगर,

खेड़ापति रोड़, मंगल नर्सिंग होम के पास,

ग्वालियर (म. प्र.).

(G-1947)

CHANGE OF NAME

Mrs. Chintamani Patel W/o Late Mr. Shyamlal Patel , resident of H. No. 1538, fourth lane Bai ka Bagicha, Jabalpur (M.P.) do hereby solemnly affirm and declare as under:- That in the PPO (Name of document) bears the name of mine as Mrs.Lata Patel (Incorrect name). That by mistake the name has been mentioned as Mrs. Lata Patel (Incorrect name) instead of Mrs. Chintamani Patel (Correct name) in the said document. That is also to categorically state that my correct name is Mrs. Chintamani Patel.

OLD NAME

(LATA PATEL)

NEW NAME

(CHINTAMANI PATEL)

(G-1948)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद सिंह पुत्र दशरथ सिंह, निवासी 264/9A साकेत नगर, भोपाल म.प्र. मेरी पुत्री का नाम बदलकर आरवी सिंह कर दिया है. जिसके संबंध में संशोधन उपरांत जारी नवीन जन्म प्रमाण-पत्र में मेरी पुत्री मीमांसा सूरज सिंह का नाम संशोधित कर आरवी सिंह कर दिया गया है. जिसे संशोधित जन्म प्रमाण-पत्र अनुसार आरवी सिंह पिता विनोद सिंह कर दिया है.

भविष्य में मेरी पुत्री को आरवी सिंह के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा एवं प्रपत्रों में संशोधन हेतु प्रकाशित किया जाए.

भवदीय

विनोद सिंह.

(G-1949)

नाम परिवर्तन

मैं, अरुणा चौहान (ARUNA CHOCHAN) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों मेरा नाम अरुणा चौहान (ARUNA CHOCHAN) है जो की सही है. परंतु मेरे पति के सर्विस बुक्स में मेरा पूर्व का नाम यशोदा बाई अंकित हो गया है. जो कि गलत है. अरुणा चौहान और यशोदा बाई दोनों मेरे ही नाम हैं. इस विज्ञप्ति के बाद मुझे अरुणा चौहान (ARUNA CHOCHAN) के नाम से ही जाना-पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम

(यशोदा बाई)

नया नाम

(अरुणा चौहान)

(ARUNA CHOCHAN)

पत्नी-श्री जगदीश कुमार

VPO बिलकिसगंज तहसील, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1950)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकिता साबनानी पुत्री चंद प्रकाश साबनानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कुमारी गरिमा उर्फ गंगा था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे अंकिता साबनानी पुत्री चंद प्रकाश साबनानी के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा. जो मेरा आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम कुमारी गरिमा उर्फ गंगा के स्थान पर अंकिता साबनानी पुत्री चंद प्रकाश साबनानी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(गरिमा उर्फ गंगा)

नया नाम

(अंकिता साबनानी)

पुत्री-चंद प्रकाश साबनानी,
ढीमर पुरा ठाकुर बाबा रोड, डबरा,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1951)

उपनाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभात शंकर पिता स्व. श्री शम्भू दयाल के नाम से जाना जाता था. वर्तमान में मेरा नाम प्रभात शंकर अवस्थी पिता स्व. श्री शम्भू दयाल अवस्थी हो गया है. अब मुझे प्रभात शंकर अवस्थी पिता स्व. श्री शम्भू दयाल अवस्थी के नाम से जाना जावे एवं हमारे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रभात शंकर)

नया नाम

(प्रभात शंकर अवस्थी)

पिता-स्व. श्री शम्भू दयाल अवस्थी,
पता-6वी बटा. विसबल, रॉड़ी,
जबलपुर (म.प्र.).

(G-1952)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लीला देवी चौधरी पति दिलीप कुमार चौधरी मेरा पूर्व नाम लीला माहेश्वरी पिता कन्हैयालाल समदानी था और मेरे कई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर लीला माहेश्वरी दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम लीला देवी चौधरी पति दिलीप कुमार चौधरी व लीला माहेश्वरी पिता कन्हैयालाल समदानी एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम लीला देवी चौधरी पति दिलीप कुमार चौधरी के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम

(लीला माहेश्वरी)

पिता-कन्हैयालाल समदानी.

नया नाम

(लीला देवी चौधरी)

पति-दिलीप कुमार चौधरी.

(G-1953)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम इश्वर्य नेमा (Ishwary Nema) पिता विजय कुमार नेमा जो कि मेरे टोरेन्ट पॉवर. लिमिटेड कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज हैं, अब मैं, भविष्य में ऐश्वर्या नेमा (Aishwarya Nema) पति श्री चैतन्य पेनूगोंडा के नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी. उपरोक्त दोनों नाम इश्वर्य नेमा (Ishwary Nema) पिता विजय कुमार नेमा व नाम ऐश्वर्या नेमा (Aishwarya Nema) पति श्री चैतन्य पेनूगोंडा एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम ऐश्वर्या नेमा (Aishwarya Nema) पति श्री चैतन्य पेनूगोंडा के नाम से जाना पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम
(इश्वर्य नेमा)
(Ishwary Nema)
पिता-विजय कुमार नेमा.
(G-1954)

नया नाम
(ऐश्वर्या नेमा)
(Aishwarya Nema)
पति श्री चैतन्य पेनूगोंडा.
पता-45, केशरबाग रोड, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि, मेरा पूर्व नाम चन्द्र प्रताप सिंह पिता श्री भगवान सिंह (पुराना नाम) जो कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों पर दर्ज है व मेरे पासपोर्ट पर चन्द्र प्रताप कुशवाह (Chandra Pratap Singh Kushwah) दर्ज हैं, अब मैं अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम चन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह (Chandra Prratapp Singh Kushwah) पिता श्री भगवान सिंह कुशवाह दर्ज करवाना चाहता हूँ, अब मैं, भविष्य में चन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह पिता श्री भगवान सिंह कुशवाह नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा. उपरोक्त दोनों नाम चन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह पिता श्री भगवान सिंह कुशवाह व चन्द्र प्रताप सिंह पिता श्री भगवान सिंह एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे है।

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम चन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह पिता श्री भगवान सिंह कुशवाह के नाम से जाना पहचाना, लिखा पढ़ा, एवं बोला जावे।

पुराना नाम
(चन्द्र प्रताप सिंह)
(Chandra Pratap Singh)
(G-1955)

नया नाम
(चन्द्र प्रताप सिंह कुशवाह)
(Chandra Prratapp Singh Kushwah)
पिता-श्री भगवान सिंह कुशवाह.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुन्नी देवी कनोजिया (Munni Devi Kanojia), पत्नी श्री जय प्रकाश कनोजिया (Jay Prakash Kanojia), निवासी-मकान नं. 171, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गुलजारी कन्नोजिया (Guljaree Kannojiya) त्रुटिवश गलत हो गया है. अतः अब मुझे मेरे सही नाम मुन्नी देवी कनोजिया (Munni Devi Kanojia), पत्नी श्री जय प्रकाश कनोजिया (Jay Prakash Kanojia) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(गुलजारी कन्नोजिया)
(Guljaree Kannojiya)
(G-1956)

नया नाम
(मुन्नी देवी कनोजिया)
(Munni Devi Kanojia)
पत्नी-श्री जय प्रकाश कनोजिया
(Jay Prakash Kanojia)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गंगा गौर पति नरेन्द्र गौर, निवासी वार्ड क्र. 09 इकबालगंज आवाम नगर, इटारसी, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश. मेरा सरनेम घोंगरे है जो कि गलत दर्ज हो गया है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही सरनेम गौर है. अतः मेरे आधार कार्ड में श्रीमती गंगा गौर लिखा, पढ़ा जाकर दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(गंगा घोंगरे)
(G-1957)

नया नाम
(गंगा गौर)
पति-श्री नरेन्द्र गौर.

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैं, कमला शर्मा पत्नी स्व. श्री पिताम्बर शर्मा, निवासी-भोपाल का पुर्नविवाह श्री डोलराज भण्डारी पुत्र श्री तारा प्रसाद भण्डारी भोपाल के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ है. प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में कमला भण्डारी पत्नी श्री डोलराज भण्डारी के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमला शर्मा)

नया नाम
(कमला भण्डारी)
पति-श्री डोलराज भण्डारी
पता-कोलार रोड़, भोपाल.

(G-1958)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्चना सोनी पत्नी श्री भरतलाल सोनी, निवासी 24/955, रामहर्षण कुंज मंदिर के पीछे द्वारिका नगर, रीवा, मध्यप्रदेश मेरे आधार/पैन/वोटर कार्ड एवं बैंक पासबुक में मेरा नाम अर्चना सोनी पत्नी श्री भरतलाल सोनी अंकित है जो सही है. मेरा पूर्व का नाम अन्जू सोनी है शासकीय दस्तावेजों अर्चना सोनी अंकित है, उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं मुझे अर्चना सोनी के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

भवदीय
(अर्चना सोनी)
पत्नी-श्री भरतलाल सोनी.

(G-1959)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम शीतल नागर पिता दुर्गेश था. लेकिन मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम शीतल धाकड़ पिता दुर्गेश धाकड़ है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे शीतल धाकड़ के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शीतल नागर)
पिता दुर्गेश

नया नाम
(शीतल धाकड़)
पिता दुर्गेश धाकड़
पता-22/18, वेदनगर नानाखेड़ा,
उज्जैन (म.प्र.).

(G-1960)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का जन्म से नाम भव्या सिंह है तथा उसके शिक्षण प्रमाण-पत्र में भी भव्या सिंह अंकित है. परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटि के कारण भूमि मीणा अंकित हो गया है. जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम भव्या सिंह है तथा मेरी पुत्री भव्या सिंह के नाम से जानी व पहचानी जाती है.

पुराना नाम
(भूमि मीणा)

नया नाम
(भव्या सिंह)

(G-1961)

CHANGE OF NAME

This is notify to the public that I, Sardamma G alias G Sharada alias G Sharda Amma alias Shardamma panikar alias G Shardamma alias Saradamma G alias G Sardamma Panicker alias Sardamma Gouriamma Panicker alias Sarada Amma alias Sardamma alias Sardamma Panicker, R/o House No. 88, Sector- B, Awadhपुरी, Khajuri Kalan, Piplani, Bhopal, Madhya Pradesh. Earlier I was known by all the above mentioned names. In my Government, non-Government records and Bank etc. I will henceforth be known and identified as Sardamma G. My changed name is Sardamma G wife of Late Shri PRG Panicker (daughter of Late Shri Keshava Pillai and Late Smt. Gouriamma). Now, onwards I will be known and identified as Sardamma G for all purposes.

OLD NAME

**(1. G Sharada, 2. G Sharda Amma, 3. Shardamma panikar,
4. G Shardamma, 5. Saradamma G, 6. G Sardamma Panicker,
7. Sardamma Gouriamma Panicker, 8. Sarada Amma,
9. Sardamma, 10. Sardamma Panicker)**

(G-1962)

NEW NAME**(Sardamma G)****आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी SB-1/1 "B" Block II, Flour Shilpi Plaza, रीवा में पंजीकृत है. जिसमें भागीदार श्री त्रियुगी नारायण शुक्ला एवं पवन कुमार शुक्ला थे. उक्त फर्म से श्री त्रियुगी नारायण शुक्ला आज दिनांक 29-08-2023 से पृथक् हो गये हैं. उक्त दिनांक से फर्म में नये भागीदार के रूप में श्रीमती पूनम शुक्ला, पता-ग्राम बेलवा सुरसरी सिंह 40 प्रतिशत की हो गयी है एवं पवन कुमार शुक्ला 60 प्रतिशत के भागीदार नियत हुये हैं. फर्म का वर्तमान पता जय स्तम्भ चौक, सिरमौर, जिला रीवा हो गया है. समस्त प्रकार के कार्यों के लिये सम्मिलित भागीदार आज दिनांक से उत्तदायी होंगे.

For M/s Shukla Construction Co.,

(पवन कुमार शुक्ला)**(Partner)**पता-ग्राम पोस्ट बेलवा सुरसरी सिंह,
तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.).

(G-1963)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम नीतू मंगलानी पिता जवाहरलाल मंगलानी था, जिसे विवाहोपरांत हमने परिवर्तित कर सिमरन हरियानी पति रवि कुमार हरियानी कर लिया है, अतः सभी जगह मुझे मेरे नये नाम सिमरन हरियानी से ही जाना-पहचाना, लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नीतू मंगलानी)

पिता-जवाहर लाल मंगलानी

नया नाम

(सिमरन हरियानी)पति-रवि कुमार हरियानी
पता-जी-8, सुन्दर बिहार, ज्ञान बिहार,
गौरीघाट, जबलपुर (म.प्र.).

(G-1964)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास सागर, मध्यप्रदेश

क्रमांक क-बी-113-रीडर-1/21-22

सागर, दिनांक -09-2023

प्रकरण क्रमांक 05 बी/113 वर्ष 2023-24

मौजा- ढाना तह. सागर

एतद्वारा सर्व साधारण को जरिये इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक माखनलाल जैन पिता कपूरचंद जैन निवासी मुख्य मार्केट ढाना तह. सागर द्वारा अध्यक्ष श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगम्बर जैन धर्मार्थ एवं परमार्थ ट्रस्ट ढाना तह. सागर द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पब्लिक ट्रस्ट पंजी में दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर संशोधन/परिवर्तन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम एवं पते निम्नानुसार हैं, विवरण इस प्रकार है :-

क्र.	प्रस्तावित नाम	निवासी	पद / प्रबंधक	पद नाम
1.	श्री माखनलाल पिता कपूरचंद जैन	ढाना-सागर	अध्यक्ष	ट्रस्टी
2.	श्री राजेश पिता दयाचंद जैन	ढाना-सागर	उपाध्यक्ष	ट्रस्टी
3.	श्री दीपक पिता विमल जैन	ढाना-सागर	कोषाध्यक्ष	ट्रस्टी
4.	श्री संजय पिता रूपचंद जैन	ढाना-सागर	सचिव	ट्रस्टी
5.	श्री यशवंत पिता होतीलाल जैन	ढाना-सागर	मंत्री	ट्रस्टी
6.	श्री प्रेमचंद पिता बालचंद जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
7.	श्री सुनील पिता होतीलाल जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
8.	श्री धनीराम पिता ज्ञानचंद जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
9.	श्री उत्तमचंद पिता गोपीलाल जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
10.	श्री अभिषेक कुमार पिता पदमचंद जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
11.	श्री अनूप जैन पिता राजेन्द्र जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
12.	श्री नीलकमल पिता सुभाषचंद जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी
13.	श्री राकेश पिता हरचंद जैन	ढाना-सागर	सदस्य	ट्रस्टी

आवेदक द्वारा प्रस्ताव दिनांक 25-07-2022 के तहत ट्रस्ट में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. उक्त ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 11-10-2023 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अपने वैध अधिकृत व्यक्ति /अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इशतहार आज दिनांक 05-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी.

जारी दिनांक : 05-09-2023

पेशी दिनांक : 11-10-2023

(G-1965)

क्रमांक क-0004-बी-113-रीडर-1/21-22

सागर, दिनांक 05-09-2023

प्रकरण क्रमांक 0004 बी/113 वर्ष 2023-24

मौजा- सागरखास, तह. सागर

एतद्वारा सर्वसाधारण को जरिये इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक सत्यनारायण पिता कृष्णकुमार केशरवानी, कटरा बाजार, सागर द्वारा अध्यक्ष श्री केशरवानी धर्मशाला, कटरा बाजार, सागर (श्रीमती महारानी बाई शोभाराम ट्रस्ट) सागर द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-9 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर संशोधन/परिवर्तन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रस्तावित नाम	निवासी	पद नाम
1.	श्री सत्यनारायण पिता कृष्णकुमार केशरवानी	भीतर बाजार सागर	ट्रस्टी
2.	श्री अजीत मलैया पिता दशरथ मलैया	जवाहरगंज वार्ड सागर	ट्रस्टी
3.	श्री प्रेमनारायण पिता देवीदीन केशरवानी	विजय टाकीज चौराहा सागर	ट्रस्टी
4.	डॉ. रवीन्द्र पिता जगन्नाथ केशरवानी	शास्त्रीचौक, सदर बाजार, सागर	ट्रस्टी
5.	श्री अजय पिता लखनलाल केशरवानी	लाजपतपुरा वार्ड सागर	ट्रस्टी
6.	श्री राजेश पिता श्यामबाबू केशरवानी	गौरीशंकर मंदिर के बाजू में जवाहरगंज वार्ड सागर	ट्रस्टी
7.	श्री जागेश्वर पिता रामेश्वर केशरवानी	कटरा बाजार सागर	ट्रस्टी
8.	श्री सुरेशचंद जैन पिता डालचंद जैन	श्रीमंत भवन बी. एस. जैन मार्ग राजीव नगर, वार्ड सागर	ट्रस्टी ट्रस्टी
9	श्री सुशील कुमार पिता हीरालाल	सदर बाजार, केन्ट, सागर	ट्रस्टी

आवेदक द्वारा प्रस्ताव दिनांक 20-09-2019 के तहत संशोधन / परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त ट्रस्ट संशोधन / परिवर्तन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 16-10-2023 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अपने वैध अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

इशतहार आज दिनांक 05-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

जारी दिनांक : 05-09-2023

पेशी दिनांक : 16-10-2023

(G-1966)

विजय कुमार डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
क्रमांक/886/रीडर-1/23 जूनी इन्दौर, दिनांक 25 सितम्बर 2023

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक आनंद ज्वेल्स, इन्दौर प्रा. लि. ग्रुप ग्रेज्युटी ट्रस्ट, पता-575/12/1, एम. जी. रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो, वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: आनंद ज्वेल्स, इन्दौर प्रा. लि. ग्रुप ग्रेज्युटी ट्रस्ट, पता-575/12/1, एम. जी. रोड, इंदौर
अचल संपत्ति	: निरंक.
चल संपत्ति	: 1,00,000/-

आज दिनांक 25 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1967)

क्रमांक/890/रीडर-1/23

जूनी इन्दौर, दिनांक 25 सितम्बर 2023

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक आनंद हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. ग्रुप ग्रेज्युटी ट्रस्ट, पता-7, सिंधु नगर, इंदौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो, वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	: आनंद हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. ग्रुप ग्रेज्युटी ट्रस्ट, पता-7, सिंधु नगर, इंदौर.
अचल संपत्ति	: निरंक.
चल संपत्ति	: 10,000/-

आज दिनांक 25 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1968)

घनश्याम धनगर, पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)